

# DR DINESH KANSAL

MD,DGO,FCPS,FICOG



**President DGES- Delhi Gynae Endoscopists Society**

**Convener and examiner for ICOG fellowship program**

**HOD at BL Kapur Hospital, Delhi**

- **Robotic surgeon trained at Harvard university, Boston**
- **Graduate and Postgraduate from Grant Medical College, Bombay**
- **Organised and operated in many national & international workshops including AAGL, FOGSI, SAFOG**

**Stya Paul award, Times of India Excellence award, Best Video on Hysteroscopy award**

**Director for Laparoscopic Surgery training & fellowship programmes**

**Published various articles in books and journals**

# BLK MAX Superspeciality Hospital, Delhi




**TLH IN**

# **ADENOMOYOSIS AND ENDOMETRIOSIS**

TLH




Adenomyosis



Endometriosis



# GLOBALAR UTERUS TILL ABOVE UMBILICUS



## CHALLENGES

---

Globular, Heavy, Vascular uterus

---

Non mobile so manipulation not possible

---


Cx often flushed, uterines identification dif

---

Specimen retrieval is a task



# ALTERED ANATOMY



Dinesh Kansal

# CHALLENGES

---

Extreme fibrosis

---

Ureterolysis and rectal dissection tough


---

Uterine artery ligation at origin not possible


---


Long surgical duration






# URETEROLYSIS







Dinesh Kansal





18.5kg fibroid removed from woman's uterus in Delhi hospital

By HT Correspondent

Published on: Aug 12, 2025 09:58 am IST

Fibroids are benign growths in the uterus, often undetected in early stages but capable of growing enough to cause severe discomfort.



Doctors Remove Enormous 18.5 Kg Fibroid from Woman's Uterus, Nearly the Weight of 5 Newborn Babies; What Causes It?

Updated by Neha Chakrabarti | Updated Aug 12, 2025, 12:42 PM

In a rare and complex surgical achievement, doctors successfully removed an enormous 18.5-kilogram fibroid uterus, approximately the weight of five newborn babies, from a 56-year-old woman, marking the largest fibroid uterus removals reported globally in the past six years.



डॉक्टरों की टीम ने महिला के गर्भाशय से निकाला 18.5 KG का ट्यूमर, जाने लक्षण, कारण और इलाज

Uterus Tumor, बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने महिला के गर्भाशय से निकाला पांच किग्रा. के बजाकर मात्रा का ट्यूमर, अत्यंत दुर्लभ है इस बात से.

Updated on: 20250812, 12:42 PM



Massive 18.5 kg fibroid removed from 56-year-old woman, experts highlight need for early diagnosis

Doctors treated a 56-year-old woman suffering from an 18.5 kg uterine fibroid, highlighting the critical importance of early diagnosis for women's health.

By Pooja Bhatia | Updated on: August 12, 2025 10:40 AM



महिला के गर्भाशय से निकाला 18.5 किलोग्राम का ट्यूमर

जास, नई दिल्ली: बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने 56 वर्षीय महिला के गर्भाशय से 18.5 किलोग्राम का ट्यूमर निकाला, जो करीब पांच नवजात के वजन के बराबर था। महिला के शरीर में छह वर्ष से कई फाइब्रॉइड थे। इनमें से एक का आकार बहुत बड़ा हो गया था। आम्ब्रेट्रिक्स एंड गायनेकोलाजी एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सीनियर हाबिटर एवं हेड डा. दिनेश कंसल के नेतृत्व सर्जरी कर इसे निकाला गया। डा. कंसल ने कहा कि प्री-सर्जिकल स्कैन में जितना हमने अनुमान लगाया था, उससे कहीं अधिक जटिल और बड़ा था। ट्यूमर के कारण गर्भाशय बढ़कर अंठों, ब्लैडर व यूरेटर जैसे आसपास के अन्य अंगों को दबाने लगा था। महत्वपूर्ण अंग फाइब्रॉइड से चिपके हुए थे। ऑपरेशन के मरीज को छुट्टी दे।



दैनिक जागरण

56 वर्षीय महिला के गर्भाशय से निकाला 18.5 किलोग्राम का ट्यूमर

नई दिल्ली: दिल्ली के नयी निजी अस्पताल में 56 वर्षीय महिला के गर्भाशय से सर्कलार्ड फाइब्रॉइड 18.5 किलोग्राम ट्यूमर निकाला गया। इस ट्यूमर के कारण महिला को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ट्यूमर के कारण आसपास के अंगों पर दबाव पड़ रहा था। महिला को कई इससे महिला परेशानियों का को चलने-करना पड़ रहा किरने में भी था सामना मुश्किल थी। महिला को फाइब्रॉइड (गर्भाशय में होने वाली गैर-कैंसरकारी गांठें) का सामना था। महिला की सर्जरी अस्पताल के प्रसूति एवं स्त्री रोग एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी विभाग प्रमुख डा. दिनेश कंसल के नेतृत्व में की गई। डा. दिनेश कंसल ने कहा कि मरीज के गर्भाशय में बहुत बड़ा ट्यूमर था। इस कारण गर्भाशय बढ़कर अंठों, ब्लैडर व यूरेटर जैसे आसपास के अन्य अंगों को दबाने लगा था। इंटरनल एन्डोमी मीटर रूप से प्रभावित हो गई थी। महत्वपूर्ण अंग फाइब्रॉइड से चिपके हुए थे। पहले हुई सर्जरी के कारण मरीज के शरीर के अंदर कुछ घाव भी थे। जिससे यह सर्जरी और भी जटिल थी।

अमर उजाला



*Thank You!*

# ENDOSCOPY TRAINING

1. Basic FOGSI course
2. Advanced FOGSI course
3. IAGE Fellowship
4. BLK MAX fellowship






# FETAL SURVIVAL RATE FOLLOWING LAPAROSCOPIC CERCLAGE PLACEMENT

**Success rates for laparoscopic cerclage were reported in the range of 76% to 100%**


	(N)		Survival Rate (%)
Carter JF et al <sup>58</sup>	13	Prospective cohort	76
Whittle WL et al <sup>48</sup>	65	Prospective cohort	80
Mingione MJ et al <sup>65</sup>	11	Retrospective cohort	83
Nicolet G et al <sup>56</sup>	14	Retrospective cohort	83
Cho CH et al <sup>66</sup>	20	Retrospective cohort	95
Liddell and Lo <sup>67</sup>	11	Cohort study	100

# CONCLUSION

Laparoscopic cerclage preferred over a repeat vaginal cerclage in patients who have failed one prior vaginal cerclage



Laparoscopic abdominal cerclage is a highly effective procedure for refractory cervical insufficiency.



Laparoscopy offers the benefits of minimally invasive surgery.

